



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1932 (श0)
(सं0 पटना 276) पटना, बुधवार, 21 अप्रील 2010

सं० बी०/समा०-02-1001/2008-302

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

16 मार्च 2010

कवि कोकिल महाकवि स्व० विद्यापति के साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को श्री कृष्ण स्मारक भवन, गाँधी मैदान, पटना के परिसर में उनकी पुण्य तिथि को राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया जायेगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 276-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>